



अंक 4, 29 मई 2017

संगठन संवाद पत्र

विस्तृत प्रवास, त्रिपुरा

6 और 7 मई 2017



अबकी बार
भाजपा
सरकार



भा रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह का यह प्रवास संगठन की मजबूती, समाज के विविध समुदायों एवं वर्गों के बीच भाजपा की उपस्थिति को विस्तार देने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के प्रवास के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने त्रिपुरा प्रदेश का प्रवास किया। इस प्रवास कार्यक्रम में उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों, अलग-अलग इकाइयों, त्रिपुरा के बौद्धिक वर्ग से संवाद एवं वहां के दर्शनीय स्थलों का दौरा किया। संवाद की दृष्टि से उनका यह प्रवास पार्टी के लिए दूरगामी हित प्रदान करेगा।

6 मई 2017

(प्रातः 6:45 से रात्रि 11:30 बजे)



- 6:45** दिल्ली निवास से प्रस्थान
- 10:00** गोवाहाटी हवाई अड्डे पर आगमन और हवाई अड्डे के विश्राम गृह में असम के मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश की एक वर्ष की सरकार के कार्यों पर चर्चा।
- 11:30** अगरतला के लिए प्रस्थान
- 12:25** अगरतला हवाई अड्डे पर हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत एवं राजकीय गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान
- 12:45** राजकीय गेस्ट हाउस में आगमन और प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश नेतृत्व के साथ विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा एवं भोजन
- 2:00** स्थानीय मीडिया के साथ पत्रकार वार्ता
- 2:30** कोर ग्रुप के साथ स्थानीय राजनीति एवं भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा
- 3:30** राष्ट्रीय एवं जिले स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के समक्ष अपने विचार एवं सुझाव खुले मन से रखे।
- 5:00** चाय पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पूर्व की बैठक के विषयों की समीक्षा
- 5:40** पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्मशतवादी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा एवं बूथ स्तर तक के लक्ष्यों का निर्धारण
- 7:00** वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक
- 7:10** 19 विभागों एवं 10 प्रकल्पों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं प्रगति कार्यों की समीक्षा एवं भविष्य की योजनाओं की रुपरेखा पर विस्तृत चर्चा।
- 10:00** वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ दिन के कार्यक्रमों की समीक्षा
- 11:30** रात्रि विश्राम



7 मई 2017

(प्रातः 8:00 से रात्रि 11:00 बजे)

- 8:00** राष्ट्रीय प्रभारी, प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिन के कार्यक्रमों के संबंध में नाश्ते चर्चा
- 9:00** संघ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा
- 9:45** बांग्ला दैनिक पत्र के संपादक के साथ अनौपचारिक चर्चा
- 10:00** त्रिपुरा के आदिवासी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे जुड़े प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए पार्टी के सहयोग का आश्वासन दिया।
- 11:20** अगरतला हवाई अड्डे से त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर के लिए हेलिकॉप्टर द्वारा प्रस्थान
- 12:10** त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर में दर्शन एवं पूजा
- 12:50** त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर से कुमार घाट के लिए प्रस्थान
- 1:35** कुमार घाट के PWD मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार की नाकामियों पर प्रहार करते हुए अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
- 3:00** अगरतला हवाई अड्डे पर आगमन
- 3:15** पार्टी कार्यकर्ता श्रीमती बोधिलिका देब वर्मा के निवास पर पार्टी के साथियों के साथ भोजन
- 3:35** अगरतला भाजपा कार्यालय में आगमन एवं कार्यालय का अवलोकन करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ भेंट
- 4:00** राजकीय गेस्ट हाउस में आगमन एवं वरिष्ठ संपादकों के साथ प्रदेश के विभिन्न विषयों पर अनौपचारिक चर्चा
- 4:15** प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा में श्री अमित शाह ने समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुनते हुए पार्टी का पक्ष रखा और उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया
- 5:30** हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान
- 7:15** दिल्ली के लिए प्रस्थान
- 11:00** दिल्ली निवास पर आगमन





भा रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपुरा में दो दिवसीय प्रवास कार्यक्रम रहा। त्रिपुरा प्रवास दौरान श्री अमित शाह की उपस्थिति में हुए तमाम बैठकों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों, स्थलों की यात्रा एवं प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक से पार्टी को संगठन एवं विचारधारा के प्रसार एवं प्रचार की दृष्टि से उल्लेखनीय लाभ मिला है। इस प्रवास कार्यक्रम को पार्टी निम्न उपलब्धियों के रूप में देख रही है।

- पिछले कुछ वर्षों तक त्रिपुरा में कमजोर रही भाजपा के लगातार बढ़ते हुए जनाधार के बाद बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत करने की दृष्टि से श्री अमित शाह का यह त्रिपुरा प्रवास बेहद महत्वपूर्ण रहा है। पार्टी का जनाधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से विस्तार की अग्रसर है, ऐसे में पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती दे तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्री अमित शाह का प्रवास एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। पार्टी इसे त्रिपुरा में एक उपलब्धि के तौर पर देख रही है।
- लम्बे समय से प्रदेश में से वामदलों की सरकार होने से त्रिपुरा की जनता को न तो देश के अन्य राज्यों में हुए विकास की खबर है और न ही उनमें खुद के विकास की महत्वाकांक्षा बची है। श्री शाह ने विभिन्न चर्चाओं में कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार के विकास अभियान और भाजपा शासित राज्यों में विकास के कामों के बारे में त्रिपुरा में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। इस जागरूकता अभियान के द्वारा प्रदेश की गरीब जनता में महत्वाकांक्षा जगाने से उनमें बदलाव के भाव का संचार होने का लाभ भाजपा को अवश्य मिलेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- देश के अधिकतर राज्यों में 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है परन्तु त्रिपुरा अभी भी 5वें वित्त आयोग के आधार पर चल रहा है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए श्री शाह ने भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश में 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया। उनके इस बयान से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बीच में एक प्रभावी सन्देश गया है, जिसका लाभ पार्टी को मिलेगा।
- राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री नरेंद्र मोदी के सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार त्रिपुरा को केंद्र की ओर से 25396 करोड़ रुपये आवंटित किए गये, जो वर्ष 2016-17 में 13वित्त आयोग के तहत 2014-15 7283 करोड़ से लगभग चार गुना ज्यादा है। इसी तरह केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार को लोक कल्याण के लिए हजारों करोड़ दे रही है, परन्तु इस राशि को जमीनी विकास में लगाने में त्रिपुरा की सरकार विफल रही है। इन आंकड़ों को रखने से एकतरफ जहाँ त्रिपुरा की सरकार की खामियां उजागर हुई हैं वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति जनता के बीच सकारात्मक संदेश प्रसारित हुआ, जो पार्टी के लिए हितकर है।
- श्री अमित शाह के प्रवास कार्यक्रम में प्रदेश के आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया। इसी क्रम में श्री शाह ने आदिवासी समुदाय के एक विशिष्ट मंडल से भेंट करके उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें केंद्र सरकार से यथोचित सहायता के आश्वासन के साथ उन्हें भाजपा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कदम भाजपा के लिए एक लाभप्रद उपलब्धि है।
- श्री अमित शाह द्वारा की गयी आदिवासी बाहुल्य कुमारघाट की विशाल जनसभा पार्टी के बढ़ते जनाधार को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में इतनी विशाल जनसभा का होना इस प्रदेश में बदलाव की लहर और भाजपा नेतृत्व की लोकप्रियता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह जनसभा अपने आप में पार्टी के लिए एक उपलब्धि है जो त्रिपुरा में फलीभूत होगी।
- अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ त्रिपुरा सरकार की भ्रष्टाचार और पक्षपात की राजनीति को उजागर करके श्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार के नेतृत्व की तथाकथित स्वच्छ छवि पर को पूर्ण रूप से बेनकाब किया जो कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को स्थापित करने में काफी कारगर सिद्ध होगा।
- त्रिपुरा के प्रबुद्धजनो के साथ हुई संगोष्ठी में श्री अमित शाह ने प्रदेश के शिक्षकों, समाजसेवियों, वकीलों, व्यापारियों समेत अनेक वर्गों के प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेश में शीघ्र बदलाव आयेगा। इस गोष्ठी श्री शाह ने एक आम नागरिक के रूप में चर्चा में भाग लिया जिससे प्रदेश के प्रबुद्ध वर्ग में बहुत ही सकारात्मक सन्देश गया जिसका लाभ भाजपा को निश्चित रूप से मिलेगा।

डाक्यूमेंटेशन एवं ग्रंथालय विभाग

एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का समृद्ध इतिहास है। भाजपा अनेक महापुरुषों, विचारकों एवं अध्येताओं की महान परम्परा वाली राजनीतिक पार्टी है। भाजपा एक ऐसे दल के रूप में खुद अनुशासित ढंग से व्यवस्थित कर सकी है जहाँ नियमित गतिविधियों का संचालन एवं विविध कार्यक्रमों की योजना किसी न किसी स्तर पर चलती रहती है। अनेक महान बलिदानों एवं संघर्षों की परम्परा वाली पार्टी के रूप में भाजपा के पास इतिहास के रूप में एक वैभवशाली विरासत मौजूद है। ऐसे में इन कार्यों को और व्यवस्थित एवं अनुशासित ढंग से संचालित करने के लिए पार्टी का डाक्यूमेंटेशन एवं ग्रंथालय विभाग कार्य करता है। इस विभाग का महत्व इसलिए भी संघर्ष की गाथा और बलिदानों की स्मृतियों का सुव्यवस्थित दस्तावेजीकरण हो। ऐसा इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि आने वर्षों में जब भी दुनिया का कोई व्यक्ति अथवा शोधकर्ता राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की विशाल परम्परा का अध्ययन करना चाहे तो उसे समस्त सामग्री सहज एवं सरल रूप में उपलब्ध हो सके। डाक्यूमेंटेशन एवं ग्रंथालय विभाग को निम्न उद्देश्यों को केंद्र में रखकर बनाया गया है।

- इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य पार्टी द्वारा अलग-अलग समय एवं स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों और बैठकों का विस्तृत पल-प्रतिपल ब्यौरा तैयार करके उसे समय नियोजन एवं प्रबन्धन के अनुकूल समायोजित करना है।
- पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यों की बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं तय किए कार्यों के आधार पर एक एक्शन टेकेन रिपोर्ट तैयार करने की समुचित व्यवस्था का निर्माण करने के लिए यह विभाग कार्य करेगा और इन रिपोर्ट्स के माध्यम से कार्य ब्यौरा उपलब्ध कराने की व्यवस्था तय करेगा।
- इस विभाग के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रेस विज्ञप्ति से लगाये पार्टी के अन्य दस्तावेजों में व्याकरण की त्रुटियाँ न हों और सही जानकारी को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए। दस्तावेज सही ढंग से संकलित हों और दोष रहित हों यह इस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- पार्टी मुख्यालय के पुस्तकालय की विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करते हुए समय-समय पर इसको अपडेट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- यह विभाग इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा कि पार्टी के जिले से लेकर हर स्तर तक जो अभी अभिनव प्रयोग के अंतर्गत कार्यक्रम होते हैं, उनके समग्र दस्तावेजीकरण एवं संकलन को सुरक्षित ढंग से सहेजा जाए और उपलब्धता की सरल प्रणाली विकसित की जाए।
- पार्टी के विभिन्न स्तरों के सभी नेताओं के चित्रों को, कार्यक्रमों के चित्रों को संरक्षित करते हुए, उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में संकलित करके रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य है।

डाक्यूमेंटेशन एवं ग्रंथालय विभाग पर श्री अमित शाह के विचार

जिस तरह से भाजपा एक गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाते हुए तेजी से बढ़ रही है, शीघ्र ही विश्व के बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करने के लिए देश में भारत आएंगे। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पार्टी के कार्यक्रमों, गतिविधियों, दस्तावेजों और नेताओं के योगदान को व्यवस्थित रूप से संकलित करें और जहाँ तक संभव उसका डिजिटाइज करके उसको स्थायी प्रारूप दें।



“कम्युनिस्ट दुनिया से खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस देश से। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि त्रिपुरा की जनता भी देश और दुनिया के साथ कदम-ताल करते हुए राज्य में भाजपा की सरकार बनायेगी।”

त्रिपुरा प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के उद्धोदन का मुख्य बिंदु:

जिस प्रकार से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, मैं मानता हूँ कि त्रिपुरा में अगली सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है।

हम त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हिंसक हमलों की कड़ी भर्त्सना करते हैं, यदि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा मानती है कि हिंसा और दमन से वे राज्य में हमें रोक पायेंगे तो यह उनकी भूल है, वे जितना भी हिंसा और दमन का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी।

कांग्रेस के समय 13वें वित्त आयोग में सेन्ट्रल टैक्स में त्रिपुरा की हिस्सेदारी जहां मात्र 7283 करोड़ रुपये थी, वही आज मोदी सरकार में लगभग तीन गुणी बढ़ कर 14वें वित्त आयोग में 25396 करोड़ रुपये हो गयी है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कांग्रेस के समय जहां त्रिपुरा को इसका कोई अंश नहीं मिलता था, वहीं मोदी सरकार ने त्रिपुरा को इसके लिए 5103 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

पहली बार अगरतला से बांग्लादेश तक रेल लिंक को बनाने का काम मोदी सरकार ने अपने हाथ में लिया है जो पूर्वोत्तर में व्यापार और टूरिज्म, दोनों के लिए निर्णायक साबित होगा।

बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पर जमीन समझौते के चलते 42 साल से लंबित चित्तमहल की समस्या दूर हुई है जिससे हजारों निवासियों को इसका फायदा हुआ है।

त्रिपुरा की लगभग दो तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीने को विवश है, एक चौथाई जनसंख्या के पास शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, बिजली का भी यही हाल है और 37 लाख की आबादी में से 8 लाख पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में विकास की एक नई यात्रा शुरू की है, त्रिपुरा की जनता भी इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है, त्रिपुरा में इस बार भाजपा की सरकार आना तय है।

২০১৮তে ক্ষমতা দখলে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি
ক্ষমতায় এলেই সপ্তম বেতন
কমিশন : ঘোষণা শাহের

ত্রিপুরায় পালাবদল
সম্পর্কে নিশ্চিত শাহ

বিজেপির অগ্রাধিকার থেকে
রাজ্যে চিটফাণ্ড তদন্ত ছাঁটাই

BJP targets Tripura to form
govt in 2018: Amit Shah

ত্রিপুরায় সরকার গড়বে বিজেপি, ঘোষণা অমিতের

জয় প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬
ত্রিপুরায় সরকার গঠন করবে
কাজ করলে ত্রিপুরা সারা দেশের
জন্ম সমাজ হয়ে উঠবে



ক্ষমতায় এলে সপ্তম পে কমিশন
চালু হবে রাজ্যেও : অমিত শাহ

Amit Shah: Lunch
in tribal house

আহার সারলেন বিজেপি সভাপতি

উপজাতি ঘরে আহার
সারলেন বিজেপি সভাপতি



BJP will form ministry
in Tripura: Amit Shah